



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 फाल्गुन, 1940 (श०)

संख्या- 234 राँची, शनिवार,

16 मार्च, 2019 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

01 मार्च, 2019 ई०।

संख्या-05/NSA/01/02/2014- 1077-- चूँकि झारखण्ड सरकार को संतुष्ट होने का पर्याप्त आधार है कि **हजारीबाग** जिला में अपराधिक एवं नक्सली गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों को निरुद्ध करने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना सामान्तया दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत निरुद्ध करना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (संख्या-65/1980) की धारा-3 की उपधारा- (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्य के **हजारीबाग** जिला के उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी को उक्त नियम की धारा-3 की उपधारा- (2) के अधीन पत्र निर्गत की तिथि से आगामी **तीन माह** तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अन्तोनी सांगा,
सरकार के अवर सचिव।